



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 69]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 1984/फाल्गुन 3, 1905

No. 69]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 1984/PHALGUNA 3, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 1984

का० आ० 107(अ) :—यतः हमें नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) का अर्जन कलकत्ता नगर में मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य संकर्मों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार ने इस बात का समाधान कर दिया है कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है ,

अतः केन्द्रीय सरकार एनद्वारा नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डरग्राउण्ड अधिकार) मेट्रो रेलवे (संकर्मों का निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 7(1) के अन्तर्गत उसे प्राप्त शक्तियों के अनुसार अर्जन करने के लिए अपने आणय की घोषणा करती है।

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि, इमारत आदि का कोई विवादित व्यक्ति आपत्ति, यदि कोई हो, तो उक्त अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उक्त विहित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से द्वासीस दिन के भीतर प्रस्तुत कर सकता है।

भूमि, जिसमें उपयोग का अधिकार कलकत्ता मेट्रो रेलवे और उससे संबंधित अन्य संकर्मों के निर्माण के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, को दशनि वाली अनुसूची

कलकत्ता महानगर

भूमि अनुसूची संख्या 4/1

प्लान का संवर्ध सेट शीट	प्रयोजन जिसके लिए भूमि आदि अथवा भूमि आदि में उपयोग का अधिकार अपे- क्षित है	भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अपेक्षित है, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण	भूमि की सीमा रेखा
ड्राईंग सं० एम० आर० सी० डब्ल्यू/लैंड/465-84	मेट्रो रेलवे तथा उससे संब- धित अन्य निर्माण कार्यों का निर्माण	65.00 (लगभग) (0.0065 हेक्टेयर)	13/1 डी डमदम स्टेशन रोड, कलकत्ता (भाग)	उत्तर: दमदम स्टेशन रोड दक्षिण: मेट्रो सिनेमा पूर्व: उसी परिसर का पूर्वी भाग पश्चिम: स्वप्न भंडार

[फाइल सं० 83/एम० टी० पी०/सी/एल ए 7]

ए० जोहरी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th February, 1984

S.O. 107(E).—Whereas the land, building etc. mentioned herein in the schedule below are required for the purpose of Construction of Metro Railway and other works connected therewith in the City of Calcutta;

And whereas the Central Government is satisfied that the land, building etc. referred to in the schedule below are required for a public purpose.

The Central Government do, therefore, hereby declare their intention to acquire the land, building etc., referred to in the schedule below, in terms of the power conferred on them under Section 7(i) of the Metro Railways (Construction of Works) Act 1978, (Act 33 of 1978).

Any person interested in the land, building etc. referred to in the schedule below may, within twenty one days from the date of publication, of this notification put of objection, if any, before the competent Authority as prescribed under Section 9(i) of the Act.

Schedule showing the land, building etc. is required for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway

CALCUTTA METROPOLITAN CITY
LAND SCHEDULE No. 4/1

Reference to Plan Set Sheet	Purpose for which the land etc. is required	Area, description and boundary of the land etc. is required		
		Area in Sq. m.	Description	Boundary of the land
MRC/W/Land/465-84	Construction of Metro Railway and other works connected therewith	65.00 (approx) (0.0065 Hectares)	13/1D, Dum Dum Station Road, Calcutta (portion)	North : Dum Dum Station Road. South : Metro Cinema East : Eastern part of the same premises. West : Swapna Stores]

[Case No. 83/MTP/C/LA/7]

A. JOHRI, Secy., Rly. Board &
Ex-officio Jt. Secy. to Govt of India.